

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2019/कार्तिक 20, 1941	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 288
No. 313]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2019/KARTIKA 20, 1941	[N.C.T.D. No. 288

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2019

सं. फा. 1(255)/स्था0/पर्या./2018-19/4440-4448.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना स.फा. 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 07 मई, 1992 की अधिसूचना सं. 56(211)/87/डीईवी.मुख्य./खंड-II/3516-24 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'विधि अधिकारी' के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (i) इन नियमों को विधि अधिकारी भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाये।  
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :- कोई भी व्यक्ति,  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या  
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए एवं संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	:	विधि अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	* 01 (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर -11 (67,700 -2,08,700 /-रुपये)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के अधिकारी:— क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में स्तर - 9 (53,100- 1,67,800 /-रुपये)/स्तर -10 (56,100 - 1,77,500 /-रुपये ) या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित एवं (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले:— <b>अनिवार्य :</b> (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि उपाधि ; तथा (ii) विधि मामलों में पांच वर्ष का अनुभव <b>वांछनीय :</b> पर्यावरणीय विधिक मामलों से निपटने का अनुभव ।

		टीप : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	: लागू नहीं
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उप राज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
कौशल किशोर, उप-सचिव (पर्यावरण)

## DEPARTMENT OF ENVIRONMENT NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2019

**No. F. 1(255)/ Estt./Env./2018-19/4440-4448.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F. 24/78/68-DH (S), dated the 24<sup>th</sup> September, 1968, and in supersession of this Government's Notification No.F. 56(211)/87/Dev.HQ/ Vol.II/3516-24 dated 7<sup>th</sup> May' 1992 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules for the post of 'Legal Officer' in the Department of Environment, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement:-** (i) These rules may be called the Legal Officer Recruitment Rules, 2019.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix:-** The number of said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc:-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications:-** No person,
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to the said post:  
 Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay/scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Legal Officer.	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group- 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 ( Rs. 67,700 - Rs. 2,08,700/- )	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.
6	7	8	9
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.
10	11
By deputation including short-Term Contract.	<p>Deputation (including Short-Term Contract):</p> <p>Officers of Central/ State Govts./Union Territories/ PSUs /Autonomous or Statutory Organizations/ Recognized Universities or Institutions:</p> <p>(A) (i) Holding analogous posts on regular basis in parent cadre/Department : <b>OR</b></p> <p>(ii) with five years' regular service in posts in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 (Rs. 53,100 - Rs. 1,67,800 ) / Level – 10 (Rs. 56,100 – 1,77,500) or equivalent in parent Cadre/ Department: and</p> <p>(B) Possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Law degree from a recognized University/ Institute; and</p> <p>(ii) Five years experience in Legal affairs.</p> <p>Desirable :</p> <p>Experience of dealing with Environmental Legal cases.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

<b>If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</b>
12	13
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

By order and in the name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi;

KAUSHAL KISHORE, Dy. Secy. (Environment)